

GOVERNMENT OF INDIA

  
 सत्यमेव जयते  
**दिल्ली राजपत्र**  
**Delhi Gazette**

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324] दिल्ली, बृहस्पतिवार नवम्बर 21, 2019/कार्तिक 30, 1941 [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 299  
 No. 324] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2019/KARTIKA 30, 1941 [N.C.T.D. No. 299

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 नवम्बर, 2019

सं.फा.7(128)/डीएलबी/2019/000580156/14600-15.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 507 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल घोषणा करते हैं कि निम्न अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित गाँव के क्षेत्रों तथा कॉलम 1 में उल्लिखित राजस्व सम्पदा/जोन जो अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के भाग हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से हटाया जाएगा और अब उन्हें शहरी क्षेत्र के रूप में माना जाएगा, अर्थात् :-

अनुसूची

जिला का नाम	क्र. सं.	गाँव का नाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम – 31 गाँव	शहरीकरण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण
01	02	03	04
उत्तर-पश्चिम	01	कुतुब गढ़	गाँवों की पुरानी अबादी के साथ-साथ पूरी राजस्व सम्पदा को शहरी घोषित किया जाता है।
	02	जौनती	-वही-
	03	गढ़ी रिंघाला	-वही-
	04	पंजाब खोड़	-वही-
	05	पूठकलां	-वही-
	06	मुबारकपुर	-वही-
	07	निठारी	-वही-
	08	बेगमपुर	-वही-

उत्तर	09	होलम्बी कलां	-वही-
	10	हरेवली	-वही-
	11	नरेला मामुरपुर	-वही-
	12	पनसाली	-वही-
	13	मामुरपुर	-वही-
	14	सनौठ	-वही-
	15	बरवाला	-वही-
	16	नरेला	-वही-
	17	लामपुर	-वही-
	18	नरेला बाकनेर	-वही-
	19	बाकनेर	-वही-
	20	कुरैनी	-वही-
	21	शाहबाद दौलतपुर	-वही-
	22	प्रहलादपुर बांगर	-वही-
	23	भोरगढ़	-वही-
	24	झंगोला	-वही-
	25	हिरनकी	-वही-
	26	बखावरपुर	-वही-
	27	घोघा	-वही-
	28	सिंघु	-वही-
	29	होलम्बी खुर्द	-वही-
	30	खेड़ा कलां	-वही-
पश्चिम	31	टिकरी कलां	-वही-
		दक्षिण दिल्ली नगर निगम - 29 गांव	
दक्षिण	32	दियोली	-वही-
	33	छतरपुर	-वही-
	34	सैदुल्लाजाब	-वही-
	35	राजपुर खुर्द	-वही-
	36	मैदान गढ़ी	-वही-
	37	सतबारी	-वही-
	38	शहुरपुर	-वही-
	39	गडईपुर	-वही-
	40	आया नगर	-वही-
	41	जोनपुरा	-वही-
	42	डेरा मंडी	-वही-
	43	भाटी	-वही-
	44	सुल्तानपुर	-वही-
	45	असोला	-वही-
दक्षिण - पूर्व	46	पुल पहलादपुर	-वही-
	47	जैतपुर	-वही-
	48	ताजपुर	-वही-
	49	मीठापुर	-वही-
	50	मोलारबंद	-वही-
	51	आली	-वही-
	52	कोटला माहीग्राम	-वही-
दक्षिण - पश्चिम	53	झड़ोदा कलां	-वही-
	54	कापसहेड़ा	-वही-
	55	मितराउं	-वही-
	56	सालारपुर	-वही-
नई दिल्ली	57	रंगपुरी	-वही-
	58	रजोकरी	-वही-
	59	समालखा	-वही-
	60	गिटोरनी	-वही-
		पूर्वी दिल्ली नगर निगम - 19 गांव	

उत्तर - पूर्व	61	मुस्तफाबाद	-वही-
	62	गोकुलपुर	-वही-
	63	जियाउद्दीनपुर	-वही-
	64	सभापुर शाहदरा	-वही-
	65	करावल नगर	-वही-
	65	जौहरीपुर	-वही-
	66	सादतपुर	-वही-
	67	बिहारीपुर	-वही-
	68	खजूरी खास	-वही-
	70	मीरपुर तुर्क	-वही-
	71	गढ़ी मंडु	-वही-
शाहदरा	72	बाबरपुर	-वही-
	73	मंडोली	-वही-
पूर्व	74	समसपुर जागीर	-वही-
	75	चिल्ला सरोदा बांगर	-वही-
	76	दलपुरा	-वही-
	77	घड़ोली	-वही-
	78	घरोड़ा नाम का बांगर	-वही-
	79	कौंडली	-वही-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर  
अनिल घिल्डियाल, उप सचिव (स्थानीय निकाय)

## DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 20th November, 2019

**No. F7(128)/DLB/2019/000580156/14600-15.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 507 of the Delhi Municipal Corporation Act 1957 (66 of 1957), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to declare that the areas of villages mentioned in column 3 of the Schedule below and falling in the revenue estate/District mentioned in column 1, hitherto part of the rural areas, shall, cease to be the rural areas and shall be deemed as Urban areas, namely:-

### SCHEDULE

Name of District	Sl. No.	Name of Villages – North DMC – 31 Villages	Particular of the Area proposed to be Urbanised
1	2	3	4
North West	1.	Qutubgarh	The old Abadis as well as the entire Revenue Estate of the said village declared as urban
	2.	Jaunti	-do-
	3.	Garhi Rindhala	-do-
	4.	Punjab Khor	-do-
	5.	Pooth Kalan	-do-
	6.	Mubarakpur	-do-
	7.	Nithari	-do-
	8.	Begampur	-do-
North	9.	Holambi Kalan	-do-
	10.	Harewali	-do-
	11.	Narela Mamurpur	-do-
	12.	Pansali	-do-
	13.	Mamurpur	-do-
	14.	Sannoth	-do-
	15.	Barwala	-do-
	16.	Narela	-do-
	17.	Lampur	-do-

	18.	Narela Bankner	-do-
	19.	Bankner	-do-
	20.	Kureni	-do-
	21.	Shahbad Daulatpur	-do-
	22.	Prahladpur Bangar	-do-
	23.	Bhorgarh	-do-
	24.	Jhangola	-do-
	25.	Hiranki	-do-
	26.	Bakhtawarpur	-do-
	27.	Ghoga	-do-
	28.	Singhu	-do-
	29.	Holmbi Khurd	-do-
	30.	Khera Kalan	-do-
West	31.	Tikri Kalan	-do-
		<b>South DMC – 29 Villages</b>	
South	32.	Deoli	-do-
	33.	Chattarpur	-do-
	34.	Saidullajab	-do-
	35.	Rajpur Khurd	-do-
	36.	Maidan Garhi	-do-
	37.	Satbari	-do-
	38.	Sahoorpur	-do-
	39.	Gadaipur	-do-
	40.	Aya Nagar	-do-
	41.	Jonapur	-do-
	42.	Dera Mandi	-do-
	43.	Bhati	-do-
	44.	Sultanpur	-do-
	45.	Asola	-do-
South East	46.	Pul Pehlad Pur	-do-
	47.	Jaitpur	-do-
	48.	Tajpur	-do-
	49.	Meethapur	-do-
	50.	Molarband	-do-
	51.	Aali	-do-
	52.	Kotla Mahigram	-do-
South West	53.	Jharoda Kalan	-do-
	54.	Kapashera	-do-
	55.	Mitraon	-do-
	56.	Salarpur	-do-
New Delhi	57.	Rangpuri	-do-
	58.	Rajokari	-do-
	59.	Samalkha	-do-
	60.	Ghitorni	-do-
		<b>East DMC – 19 Villages</b>	
North East	61.	Mustafabad	-do-
	62.	Gokulpur	-do-
	63.	Ziauddinpur	-do-
	64.	Sabhapur Shahdara	-do-
	65.	Karawal Nagar	-do-
	66.	Johripur	-do-
	67.	Sadatpur	-do-
	68.	Biharipur	-do-
	69.	Khajuri Khas	-do-
	70.	Mirpur Turk	-do-
	71.	Garhi Mendu	-do-
Shahdara	72.	Babarpur	-do-

	73.	Mandoli	-do-
East	74.	Samaspur Jagir	-do-
	75.	Chilla Saroda Bangar	-do-
	76.	Dallupura	-do-
	77.	Gharoli	-do-
	78.	Gharonda Neem ka Bangar	-do-
	79.	Kondali	-do-

By Order and in the Name of Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
ANIL GHILDIYAL, Dy. Director (Local Bodies)